



# केन्द्रीय विद्यालय बैरागढ़

Kendriya Vidyalaya Bairagarh  
Registration from

REG. NO

क्रम सं S.No.

वर्ष 2023

पंजीकरण के लिए कक्षा / Registration for class..... (Put tick mark in appropriate box)

Ist Shift

OR

IInd Shift

प्रथम पाली

द्वितीय पाली

Photograph of the child  
(Passport size)

1- विद्यार्थी का पूरा नाम

Name of child in full (in Capital letters)

Sex

M

F

Day

Month

Year

2- जन्म तिथि (अंकों में)

Date of Birth

(शब्दों में) In words.....

आयु 31-3-2023 तक

Age as on 31.3.2023

वर्ष

मास

दिन

Years

Months

Days

3. Blood Group of the child

बच्चे का रक्त समूह

4. The category to which child belong / छात्र की श्रेणी

Gen. Cat

SC

ST

OBC

EWS

BPL

Disabled

S.G Child

सामान्य श्रेणी

अन० जाति

अन० जन जाति

आ०बी०सी०

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

बी पी एल

विकलांग

इकलौती कन्या

5. क्या आप अनुसूचित जाति/जनजाति /ओ बी सी से /आर्थिक रूप से कमजोर/बी पी एल/विकलांग/ इकलौती कन्या यदि हों तो प्रमाण -पत्र संलग्न करें।  
Whether the child belongs to (/SC/ST/OBC/EWS/BPL/Disabled/S.G.)Category, Please attach relevant certificate.

6- माता पिता का ब्यौरा / Details of Mother/ Father

माता/  
Mother

पिता/  
Father

(i) नाम/ Name (in Capital letters)

(ii) राष्ट्रियता / Nationality

(iii) व्यवसाय / Occupation

(iv) कार्यालय का नाम एवं पूरा पता व दूरभाष

Name of Office and full address with Telephone numbers

(v) पूर्ण आवासीय पता व दूरभाष

Full residential address with Telephone numbers (with proof)

(vi) विद्यालय से दूरी/ Distance from KV\*

(vii) स्थाई पता / Permanent Address

(viii) मूल वेतन / Basic Pay

(ix) 31-3-2023 तक सेवाकाल के दौरान 7 वर्षों में स्थानान्तरणों की संख्या

No.of transfers during 7 years as on 31-3-2023 of the year

(x) श्रेणी रक्षा/ केन्द्रीय कर्म/ स्वायत्तशासी व अन्य

Category to which the Parent belong to Defence/Central Govt./Autonomous body & others

(xi) Employee Code:

मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त प्रविष्टियाँ मेरी जानकारी में सत्य हैं।

I certify that the above entries are true to the best of my knowledge.

माता पिता के हस्ताक्षर / Signature of Parent

पूरा नाम / Full Name

तिथि/ Date:

पावती/Acknowledgement

क्रम सं० S. No

पंजीकरण संख्या/ Registration No

श्री/श्रीमती से उनके पुत्र/ पुत्री का कक्षा

में प्रवेश हेतु पंजीकरण आवेदन प्राप्त करें।

Received an application from Shri/Smt. for registration of her/ his son/ daughter for admission to

प्राचाय

केन्द्रीय विद्यालय (मुद्रांक) /

Principal

Kendriya Vidyalaya (Stamp)

तिथि/ Date

Note: 1. Proof of residence shall have to be produced by all applicants.

2. A self-declaration from the parent for distance may also be accepted by furnishing an undertaking to this effect.

**सेवा प्रमाण पत्र /SERVICE CERTIFICATE  
(Centre Govt)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....कार्यालय/मंत्रालय में कार्यरत हैं। वे रक्षा सेवा/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल/एन.एस.जी./एस.पी.जी./सी.आई.एस.एफ./केन्द्रीय सरकार स्वायत्त संस्था/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के/की कर्मचारी हैं जिनका पूर्ण वित्त प्रबंध केन्द्रीय स्थानांतरणीय हैं।

Certified that Shri/Smt.....is working in the office/Ministry of.....He/She is an employee of Defence Service/CRPF/BSF/NSG/SPG/CISF/Central Govt./Autonomous Body/Public Sector Undertaking fully financed/partially financed by Central Govt. and his/her services are transferable anywhere in India.

**सेवा प्रमाण-पत्र / SERVICE CERTIFICATE (State Govt)**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ..... कार्यालय/मंत्रालय में कार्यरत हैं। वह राज्य में कहीं भी स्थानांतरणीय राज्य सरकार के एक कर्मचारी हैं।

Certified that Shri/Smt.....is working in the office/Ministry of..... He/She is an employee of state Government transferable anywhere in the state.

स्थान एवं दिनांक .....

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)

Station with date

Sign. & Name in block letters and design of the head of office with stamp

दूरभाष / Telephone No.....

प्रमाणित किया जाता है कि.....स्वर्गीय/श्री/श्रीमती.....के पुत्र/पुत्री हैं जो.....में सेवारत थे और उनका देहावसान सेवाकाल के दौरान दिनांक.....को हो गया था। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती..... जो .....के माता-पिता हैं, उनके वर्तमान वर्ष की 31 मार्च से सात वर्षों के दौरान.....स्थानांतरण हुए हैं। एकक/कार्यालय और ऐसी तैनातियों की अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है, जिसके कारण स्थान बदलना पड़ता है।

Certified that Master/Km.....is the son/daughter of lateSh./Smt ..... who was employed in the Office/Ministry/Defence service. He/she had died in harness on the..... It is further certified that ..... (Particulars of son/ daughter ..... has/ had ..... (No. of posting) transfers during the preceding last seven years from 31<sup>st</sup> March of the current year. The Unit Office & the duration of such postings involving change of station are given below:-

क्र.सं. S.No.	पदनाम Designation	स्थान Place of Posting	ठहरने की अवधि Period of stay		आदेश संख्या Order No.
			से From	तक To	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

स्थान एवं दिनांक .....

कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पद और हस्ताक्षर (कार्यालय की मोहर सहित)

Station with date.....

Sign. & Name in block letters and design. of the head of office with stamp

दूरभाष / Telephone No.....

Address -.....

टप्पणी : रक्षा संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा प्रमाण पत्र पर कमान अधिकारी के हस्ताक्षर अपेक्षित है।

Enclosures:

Note:- Service Certificate duly signed by the Commanding Officer in case of employees working in Defence establishment.

**CERTIFICATE FROM PRIORITY - 1 CANDIDATES FOR ADMISSION  
IN CLASS- \_\_\_\_, IN KENDRIYA VIDYALAYAS**

I, (Smt./Shri)\_\_\_\_\_ (Name)\_\_\_\_\_ (rank/ designation) of \_\_\_\_\_ (unit/ship/Deptt). do hereby certify that during the past 7 years I have been transferred \_\_\_\_\_ times (in figures & in words) from one station to another, the details of which are given as under :-

S.No.	Formation/Unit/ Depot/Office	Whether moved with family	Place	Period		Total Period of stay	Authority of move
				From	To		

I further certify that in case the above-mentioned facts are found incorrect, my child will be disqualified for admission to Kendriya Vidyalaya.

SIGNATURE OF PARENT

PLACE:  
DATE:

**PLEASE REFER PRIORITIES PRESCRIBED IN ADMISSION GUIDELINES.  
COUNTERSIGNED**

**(Countersigned by Commanding Officer / controlling Officer of the Rank of Colonel OR Equivalent)**

I, Sh. .... rank/designation .....  
..... name ..... unit/ship/department .....

hereby certify that the particulars given in para 1 have been authenticated by the records held in the office and found to be correct.

Place:

Date:

(SIGNATURE OF THE CO/OC UNIT/CONTROLLING OFFICER)

(ADDRESS)

1. Minimum period of posting/stay at a place should be six months.
2. Form to be signed by an officer not below the level of Colonel or equivalent in Navy/Air Force/Para-Military Forces.
3. In case the CO is below the rank of Colonel, the form be signed by the Station Commander/Colonel/Colonel in a station.

**ANNEXURE – I**

**Self-Declaration Format**

I \_\_\_\_\_, Father/Mother of Master/Miss \_\_\_\_\_  
age \_\_\_\_\_ years, resident of \_\_\_\_\_ (complete address), do hereby  
declare that the information given in admission form of the admission in Kendriya Vidyalaya,  
\_\_\_\_\_ and in the enclosed documents is true to the best of my knowledge and belief and  
nothing has been concealed therein. I am well aware of the fact that if the information given by me is  
proved false / not true at any point of time, admission will be cancelled and I will be liable to legal actions as  
per guidelines of KVS and any benefit accrued by me or my ward shall be summarily cancelled.

Date:-

Place:

Signature of the Parent/Guardian